



अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय- 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.
दूरभाष : (022) 24306321 / 24378866 फैक्स : 24313938 ई-मेल : abvpkendra@gmail.com

दिनांक: 8 मई 2021

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

**कोरोना सेवाओं में 8 लाख आयुष चिकित्सकों को शामिल किया जाना स्वागतयोग्य: अभाविप
2 मई को प्रधानमंत्री को प्रेषित पत्र में अभाविप ने उठाई थी मांग**

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोरोना के सेवा कार्यों में 8 लाख आयुष चिकित्सकों को शामिल करने के निर्णय को महत्वपूर्ण मानती है तथा सरकार के इस निर्णय का स्वागत करती है।

विदित हो की अभाविप ने 2 मई को कोरोना महामारी के विरुद्ध विद्यार्थी तथा युवा-समुदाय के सुझावों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री को एक सुझाव पत्र सौंपा था जिसमें एक सुझाव आयुष के अन्तर्गत आने वाले बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस. सहित सभी विधाओं के कुल 8 लाख चिकित्सकों को कोविड-19 सेवाओं में लगाने के लिये था। केन्द्र सरकार ने अभाविप के इस सुझाव को मानकर कोरोना के सेवा कार्यों में 8 लाख आयुष चिकित्सकों को शामिल करने का निर्णय दिया है जो चिकित्सा क्षेत्र के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथा राहत योग्य निर्णय सिद्ध होगा।

अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि, “आयुष चिकित्सकों को कोरोना सेवा कार्य में जोड़ने के केन्द्र सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं। कोरोना की द्वितीय लहर में चिकित्सा क्षेत्र में पहले से सेवा दे रहे कर्मियों पर अतिरिक्त भार आया है। बढ़ते मामलों को देखते हुये महत्वपूर्ण था की इस वर्ष उत्तीर्ण हुये आयुष चिकित्सकों को कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवाओं में जोड़ा जाये।”

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री नीरज चौधरकर द्वारा जारी की गई है।)